



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 160]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015 /MAGHA 3, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

का.आ. 226 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में तारीख 27 मई, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1375 (अ) तारीख 27 मई, 2013 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|----------------|
| 1. श्री कलराज मिश्र, संघ के मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | अध्यक्ष-पदेन |
| 2. श्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | उपाध्यक्ष-पदेन |
| 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, मणिपुर राज्य | सदस्य-पदेन |
| 4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश राज्य | सदस्य-पदेन |
| 5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य | सदस्य-पदेन |
| 6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, तमिलनाडु राज्य | सदस्य-पदेन |
| 7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य | सदस्य-पदेन |
| 8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, ओडिसा राज्य | सदस्य-पदेन |
| 9. श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 10. श्री नित्यानंद राय, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 11. श्री बी.के. हरी प्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 12. प्रशासक (उप-राज्यपाल), अंदमान और निकोबार | सदस्य |
| 13. सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | सदस्य-पदेन |
| 14. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय | सदस्य-पदेन |
| 15. सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | सदस्य-पदेन |
| 16. सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय | सदस्य-पदेन |

17. सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य-पदेन
18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य-पदेन
19. अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	सदस्य-पदेन
20. अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन	सदस्य-पदेन
21. डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य-पदेन
22. राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सू.ल.म.उ. संघ (एआईएमए)	सदस्य
23. राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम नॉलेज इंडस्ट्री (एएमएसकेआई)	सदस्य
24. अध्यक्ष, एमसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलकाता	सदस्य
25. राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती	सदस्य
26. राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री एसोसिएशन	सदस्य
27. महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई	सदस्य
28. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ नार्थ-ईस्ट रिजन	सदस्य
29. अध्यक्ष, तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री एसोसिएशन (टीएएनएसटीआईए)	सदस्य
30. दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई)	सदस्य
31. सह-अध्यक्ष, नेशनल काँसिल फोर एसएमई, दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	सदस्य
32. महानिदेशक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)	सदस्य
33. कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीओडीईएसएसआईए)	सदस्य
34. अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सदस्य
35. अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)	सदस्य
36. अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सदस्य
37. अध्यक्ष, कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (केएसएसएसआईए)	सदस्य
38. राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए)	सदस्य
39. अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ वूमैन आंटप्रनर ऑफ कर्नाटक (एडब्ल्यूएकेई)	सदस्य
40. सभाध्यक्ष, कंशोटियम ऑफ वूमैन आंटप्रनर ऑफ इंडिया (सीडब्ल्यूआईआई)	सदस्य
41. श्री टी. मुरलीधरन, अध्यक्ष, टीएमआई समूह, हैदराबाद	सदस्य (उद्योगपति)
42. श्रीमती सुषमा पाल बेरलिया, को-प्रमोटर एवं अध्यक्ष, एपीजे सत्य एंड स्वर्ण समूह, गुडगांव	सदस्य (अर्थशास्त्री)
43. श्री कृष्ण खन्ना, संस्थापक न्यासी, आईवाच, मुम्बई	सदस्य (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
44. भारतीय मजदूर संघ	सदस्य
45. सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए), अहमदाबाद	सदस्य
46. विशेष सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)	सदस्य सचिव-पदेन

[फा.सं. 1 (19)/2013-एनबीएमएसएमई]

अमरेन्द्र सिन्हा, विशेष सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण: मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का.आ. 1375 (अ) तारीख 27 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित हुई थी और पश्चातवर्ती निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई:

क्रम संख्यांक	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना तिथि
1.	का.आ. 3241(अ)	21.10.2013
2.	का.आ. 890(अ)	25.03.2014

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd January, 2015

S.O. 226 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1375 (E), dated the 27th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th May, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby establishes the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises for the purposes of the said Act, which shall consist of the following members, namely:—

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Shri Kalraj Mishra, Union Minister, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | Chairperson-ex officio |
| 2. Shri Giriraj Singh, Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | Vice Chairperson- ex officio |
| 3. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Manipur | Member – ex officio |
| 4. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Madhya Pradesh | Member – ex officio |
| 5. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Uttar Pradesh | Member – ex officio |
| 6. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Tamil Nadu | Member – ex officio |
| 7. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Maharashtra | Member – ex officio |
| 8. Minister in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Odisha | Member – ex officio |
| 9. Shri Rahul Kaswan, Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 10. Shri Nityanand Rai, Member of Parliament (Lok Sabha) | Member |
| 11. Shri B.K.Hari Prasad, Member of Parliament (Rajya Sabha) | Member |
| 12. Administrator (Lieutenant Governor) of Andaman and Nicobar | Member |
| 13. Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | Member – ex officio |
| 14. Secretary to the Government of India, Ministry of Finance | Member – ex officio |
| 15. Secretary to the Government of India, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry | Member – ex officio |
| 16. Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment | Member – ex officio |
| 17. Secretary to the Government of India, Ministry of Food Processing Industries | Member – ex officio |
| 18. Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development | Member – ex officio |
| 19. Chairman, Small Industries Development Bank of India | Member – ex officio |
| 20. Chairman, Indian Banks' Association | Member – ex officio |
| 21. Deputy Governor, Reserve Bank of India | Member – ex officio |
| 22. National President, All India MSME Association (AIMA) | Member |
| 23. National President, Association of Small and Medium Knowledge Industries (AMSKI) | Member |
| 24. Chairman, MCC Chamber of Commerce and Industry, Kolkata | Member |
| 25. National General Secretary, Laghu Udyog Bharti | Member |
| 26. National President, All India Confederation of Small and Micro Industries Association. | Member |
| 27. Director General, India SME Forum, Mumbai | Member |
| 28. Chairman, Federation of Industries and Commerce of North East Region. | Member |
| 29. President, Tamil Nadu Small and Tiny Industries Association (TANSTIA) | Member |
| 30. Dalit India Chamber of Commerce and Industry (DICCI). | Member |
| 31. Co-Chairman, National Council for SMEs, The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) | Member |

32. Director General, Indian Chamber of Commerce (ICC)	Member
33. Coimbatore District Small Industries Association (CODESSIA)	Member
34. Chairman, SME Chapter, Confederation of Indian Industry (CII)	Member
35. Chairman, SME Chapter, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)	Member
36. Chairman, SME Chapter, PHD Chamber of Commerce and Industry	Member
37. President, Karnataka Small Scale Industries Association (KASSIA)	Member
38. National President, Indian Industries Association (IIA)	Member
39. President, Association of Women Entrepreneurs of Karnataka (AWAKE)	Member
40. Chairperson, Consortium of Women Entrepreneurs of India (CWEI)	Member
41. Shri T. Murlidharan, Chairman, TMI Group, Hyderabad	Member (Industrialist)
42. Mrs. Sushma Paul Berlia, Co-Promoter and President, Apeejay Styra and Svrn Group, Gurgaon.	Member (Economist)
43. Shri Krishan Khanna, Founder Trustee, iWatch, Mumbai	Member (Science & Technology)
44. Bhartiya Majdur Sangh	Member
45. Self Employed Women's Association (SEWA), Ahmedabad	Member
46. Special Secretary and Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)	Member Secretary- ex officio

[F. No. 1(19)/2013-NBMSME]

AMARENDRA SINHA, Spl. Secy. and Development Commissioner (MSME)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1375 (E) dated 27th May, 2013 and subsequently amended vide the following notifications –

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	S.O. 3241 (E)	21.10.2013
2.	S.O. 890(E)	25.03.2014